



February 13, 2024

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400001

**Ref: H.P. Cotton Textile Mills Limited (Scrip Code: 502873)**

**Sub: Publication of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2023**

Dear Sir,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Mint (English Newspaper) and Hari Bhoomi (Hindi Newspaper) both dated February 13, 2024 in which unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the company for the quarter and nine months ended on December 31, 2023, have been published. The aforesaid results have been approved by the Board of Directors in its meeting held on February 12, 2024.

This is for your information and records.

For **H.P. Cotton Textile Mills Limited**

**Shubham Jain**

Company Secretary and Compliance Officer

**Encl: As above**



**H.P. Cotton Textile Mills Limited**

(A Government of India recognised Star Export House)

**Corporate Office:**

F-0, The Mira Corporate Suites,  
1 & 2, Old Ishwar Nagar, Mathura Road,  
New Delhi - 110065, India

www.hpthreads.com

**T:** +91 11 26927387, 49073415  
+91 11 41540471/72/73

**F:** +91 11 49073410

**E:** info@hpthreads.com

**Regd. Office & Works:**

15 K.M. Stone, Delhi Road,  
V.P.O Mayar, Hisar - 125 044,  
Haryana, India

**CIN NO.** L18101HR1981PLC012274



ISO 9001 : 2008





# SpiceJet laying off 15% staff to save ₹100 crore per year

The layoffs have begun, and will hit employees in all categories of operations, except pilots

Anu Sharma  
anu.sharma@livemint.com  
NEW DELHI

**B**udget carrier SpiceJet is in the process of laying off nearly 15%, or about 1,500 of its employees to cut costs following a reduction in its fleet size by two-thirds. The cash-strapped airline expects to save around ₹100 crore per year from this exercise.

"As part of our turnaround and cost-cutting strategy, following the recent fund infusion, SpiceJet has initiated several measures, including manpower rationalization, aimed at achieving profitable growth and positioning ourselves to capitalize on the opportunities in the Indian aviation industry," said a spokesperson for SpiceJet.

"Through this initiative alone, we anticipate an annual saving of up to ₹100 crore."

The Gurugram-based SpiceJet recently raised ₹744 crore by allotting shares and warrants on a preferential basis.

Last month, the low-cost airline received an in-principle approval from BSE to raise ₹2,242 crore by issuing shares.

"The new investors who have come on board do not want to pay free salaries," said a person familiar with the developments at SpiceJet, adding that pilots are unlikely to be affected in the layoffs.

"The layoffs have already started. It will be across all categories of opera-



SpiceJet had about 10,060 employees, including 7,131 permanent employees and 2,929 staff on contract, as per its annual report for 2022-23.

tions," said a second person. "The plan is to complete this drive by March 31."

Both of them declined to be identified. SpiceJet had about 10,060 employees, including 7,131 permanent employees and 2,929 staff on contract, as per its annual report for 2022-23.

That year, the airline's expenditure on employee benefits stood at ₹880 crore, which is about 9% of its total expenses of ₹9,880 crore. The airline is expected to terminate the employment of nearly 15% staff or around 1,500 employees by the end of the current financial year, the second person cited above told *Mint*.

**₹744 cr** raised by SpiceJet recently by allotting shares

**₹2,242 cr** fundraise approval from BSE last month

When contacted, a company official confirmed the number of jobs being cut, but requested not to be identified.

SpiceJet's net fleet size has dropped to 41 aircraft from 120 aircraft in 2019. Of these, about 10 are in wet lease, meaning aircraft leased along with pilots and cabin crew.

In 2017, SpiceJet had placed a firm order for 155 Boeing 737 MAX aircraft, with options for another 50 such planes. The airline, however, has been unable to take deliveries beyond 13 aircraft, largely on account of financial challenges in making upfront payments.

The airline, however, doesn't plan to alter the order placed with Boeing for the MAX aircraft, said the first person mentioned earlier.

While SpiceJet is downsizing, competitors such as IndiGo, Akasa Air and Air India are expanding their fleets, which is likely to spur additional hiring.

SpiceJet is due to complete a second tranche of capital infusion via equity and warrants. Under the first tranche, the airline had aimed to use ₹54.5 crore for employees.

The pandemic took a particularly severe toll on SpiceJet, adding to its losses. Consolidated net loss widened from ₹302 crore in FY19 to ₹937 crore in FY20, and further to ₹1,030 crore in FY21, ₹1,744 crore in FY22, before narrowing to ₹1,513 crore in FY23.

The airline's market share too has been falling, from 16.5% of the domestic aviation market in December 2019, to 5.6% in December 2023, as per data from the Directorate General of Civil Aviation.

SpiceJet has been facing financial strain for a while, entangled in various legal battles across different courts, making it challenging for the airline to stay afloat and avoid possible insolvency. The company announced in December it plans to raise fresh capital through the issuance of equity shares.

The airline aims to use its shares as a means to clear all its pending dues. SpiceJet has also offered shares to Sun Group chairman Kalanithi Maran to settle an arbitral award.

**Sagarmala Development Company Ltd (SDCL)**  
(A Government of India Enterprise)

**Request for Proposal for**

- Appointment of Consultant for Preparation of Standardized Bidding Documents for Projects Under the Sagarmala Programme.
- Appointment of Consultant for Preparation of Detailed Project Report (DPR) for Financing Scheme for Deep-sea Fishing Vessels (DSFVs).

SDCL invites interested parties in India to participate in the aforesaid assignments. Interested parties may download the RFP document from SDCL website [www.sdclindia.com](http://www.sdclindia.com) or from Central Public Procurement Portal (CPPP) or from e-tender website [www.sdcl.eunivizarde.com](http://www.sdcl.eunivizarde.com) for detailed terms and conditions of the assignment.

All future communication/corrigendum for the above assignments will be issued only on SDCL website [www.sdclindia.com](http://www.sdclindia.com) and [sdcl.eunivizarde.com](http://sdcl.eunivizarde.com). For any query kindly contact General Manager, SDCL at [gm.projects@sdclindia.com](mailto:gm.projects@sdclindia.com) or 011-21400754.

Date : 13<sup>th</sup> February 2024

**MUNJAL SHOWA LIMITED**  
CIN: L34101HR1985PLC020934  
Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Sector-18, Gurugram -122015 (Haryana)  
Tel: +91-124-4783000; Email: [cs@munjalshowa.net](mailto:cs@munjalshowa.net)  
Website: [www.munjalshowa.net](http://www.munjalshowa.net)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Notice is hereby given to the Members of **Munjala Showa Limited (the "Company")**, pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013, ("the Act"), read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("the Rules"), and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") inter alia for conducting Postal Ballot through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020; 33/2020 dated 28th September, 2020; 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 3/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th December, 2022 and 9/2023 dated 25th September, 2023 ("MCA Circulars"); and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular dated 12th May, 2020, dated 15th January, 2021, dated 13th May, 2022, 5th January, 2023 and dated 6th October, 2023 (collectively referred to as "Circulars") read with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations") and Secretarial Standards -II on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and notified by MCA and any other applicable provisions, if any (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force and as amended from time to time), that the following agenda item is proposed for consideration by the Members of the Company for approval by means of Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting"):

S.No.	Agenda Item
1.	Approval for the appointment of Ms. Neetika Batra (DIN: 10219725) as Non-Executive, Independent Director of the Company for a period of five consecutive years w.e.f. 01st April, 2024 (Special Resolution)

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, by electronic means only, on **Monday, February 12, 2024** to those members of the Company whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as maintained by the Company/Depositories, respectively, as at close of business hours on **Friday, February 09, 2024 (the "Cut-off date")** and whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at <https://www.munjalshowa.net/>, websites of the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) respectively, and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Members whose names appeared on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the Cut-off date are entitled to vote on the Resolution as set forth in the Postal Ballot Notice. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up equity shares held by them as on the Cut-off date. A person who is not a member as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at [cs@munjalshowa.net](mailto:cs@munjalshowa.net) along with the copy of the signed request letter in Form ISR-1 mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (e.g. Aadhaar, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to [cs@munjalshowa.net](mailto:cs@munjalshowa.net).

In compliance with MCA circulars, the Company has provided only the remote e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the physical Postal Ballot form. The communication of the assent or dissent of the members would take place only through the remote e-voting system. For this purpose, the Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating remote e-voting to enable the members to cast their votes electronically only.

The detailed procedure and instructions for remote e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice. Remote e-voting shall commence at **09:00 a.m. (IST) on Friday, February 16, 2024 and shall end at 05:00 p.m. (IST) on Saturday, March 16, 2024**. The remote e-voting facility will be disabled for voting by CDSL upon expiry of the aforesaid voting period.

The Company has appointed **Mr. Satyender Kumar (FCS: 4087 and COP No.: 5189), Practising Company Secretary of M/s Satyender Kumar & Associates (Company Secretaries), Gurugram**, to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process. The result of the Postal Ballot will be announced within two working days from the last date of voting and will also be simultaneously displayed on the notice board of the Company at its Registered Office.

The results will also be uploaded on the website of the Company, website of CDSL and will also be intimated to NSE and BSE.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call at toll free no. **1800 22 55 33**. You may also refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

In case of any queries related to Postal Ballot Notice or in case any member whose name appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date, has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to [cs@munjalshowa.net](mailto:cs@munjalshowa.net).

By the order of the board  
For Munjal Showa Limited  
Sd/-  
Neha Bansal  
M. No: A38848  
Date : February 12, 2024  
Place : Gurugram, Haryana  
Company Secretary & Compliance Officer

**HP COTTON TEXTILE MILLS LTD**  
**H.P. COTTON TEXTILE MILLS LIMITED**  
(CIN: L18101HR1981PLC012274)  
Regd. Office: 15th K.M. Stone, Delhi Road, V.P.O. Mayar, Hisar-125044  
Website: [www.hphthreads.com](http://www.hphthreads.com) E-mail: [info@hphthreads.com](mailto:info@hphthreads.com)  
Tel: +91 11 4154047/17273. Fax: +91 11 49073410

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2023**  
(in Lakh, unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE RESULTS			CONSOLIDATED RESULTS		
		Quarter ended 31-12-2023 (Un-Audited)	Nine month ended 31-12-2023 (Un-Audited)	Quarter ended 31-12-2022 (Un-Audited)	Quarter ended 31-12-2023 (Un-Audited)	Nine months ended 31-12-2023 (Un-Audited)	Quarter ended 31-12-2022 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	2596	7567	2627	2596	7567	2627
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(114)	(146)	(986)	(115)	(148)	(987)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(114)	(146)	(986)	(115)	(148)	(987)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(124)	319	(1059)	(125)	317	(1060)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(124)	318	(1047)	(125)	316	(1048)
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10 each)	392	392	387	392	392	387
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	1226	-	-	1223	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	- Basic (in Rs.)	(3.18)	8.12	(27.38)	(3.18)	8.12	(27.38)
	Diluted (in Rs.)	(3.18)	8.12	(27.38)	(3.18)	8.12	(27.38)

**Notes:**

- The above financial results of H.P. Cotton Textile Mills Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 12, 2024.
- The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 is available on the Stock Exchange website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and the company's website ([www.hphthreads.com](http://www.hphthreads.com)).

For H.P. Cotton Textile Mills Ltd.  
Sd/-  
RaghavKumar Agarwal  
Executive Director, CEO & CFO  
DIN : 0283 6610

Place : New Delhi  
Date : February 12, 2024

**Coal India Limited**  
A Maharatna Company  
[www.coalindia.in](http://www.coalindia.in)

Coal Bhawan, Premises No. 4  
MAR, Plot No. AF-III, Action Area -  
1A, New Town, Rajarhat,  
Kolkata 700156

CIN: L23109WB1973GOI028844

**Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended			Year ended
		31-12-2023 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-12-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	36153.97	32776.41	35169.33	104913.59	100099.57	138251.91	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and / or extraordinary items)	12374.93	8850.01	10593.68	31937.27	30358.54	38000.81	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and / or extraordinary items)	12374.93	8850.01	10593.68	31937.27	30358.54	38000.81	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	9093.69	6813.50	7719.11	23848.59	22597.32	28124.94	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax))	9016.95	6765.22	7749.49	23907.57	22819.20	28389.57	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of share ₹10/- each)	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	
7	Other Equity						51082.16	
8	Earnings per share (EPS) (Face Value of ₹ 10/- each)*							
	Basic : (in ₹)	14.72	11.03	12.58	38.68	36.72	45.70	
	Diluted : (in ₹)	14.72	11.03	12.58	38.68	36.72	45.70	

\* EPS is not annualised for the quarter ended and nine months ended (₹ in Crore Except EPS)

**Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended			Year ended
		31-12-2023 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-12-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	398.59	293.99	695.31	1028.33	1441.47	1950.51	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and / or extraordinary items)	9391.89	2246.26	8883.46	12616.30	11839.72	15093.51	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and / or extraordinary items)	9391.89	2246.26	8883.46	12616.30	11839.72	15093.51	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	9316.40	2196.19	8809.07	12430.61	11664.05	14802.31	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax))	9327.98	2173.35	8787.77	12411.54	11512.96	14676.89	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of share ₹10/- each)	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	
7	Other Equity						10543.72	
8	Earnings per share (EPS) (Face Value of ₹ 10/- each)*							
	Basic : (in ₹)	15.12	3.56	14.29	20.17	18.93	24.02	
	Diluted : (in ₹)	15.12	3.56	14.29	20.17	18.93	24.02	

\* EPS is not annualised for the quarter ended and nine months ended

**Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended			Year ended
		31-12-2023 (Unaudited)	30-09-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-12-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	398.59	293.99	695.31	1028.33	1441.47	1950.51	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and / or extraordinary items)	9391.89	2246.26	8883.46	12616.30	11839.72	15093.51	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and / or extraordinary items)	9391.89	2246.26	8883.46	12616.30	11839.72	15093.51	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	9316.40	2196.19	8809.07	12430.61	11664.05	14802.31	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax))	9327.98	2173.35	8787.77	12411.54	11512.96	14676.89	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of share ₹10/- each)	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	6162.73	
7	Other Equity						10543.72	
8	Earnings per share (EPS) (Face Value of ₹ 10/- each)*							
	Basic : (in ₹)	15.12	3.56	14.29	20.17	18.93	24.02	
	Diluted : (in ₹)	15.12	3.56	14.29	20.17	18.93	24.02	

\* EPS is not annualised for the quarter ended and nine months ended

**Notes:**

- The above are the extracts of the detailed formats of consolidated (including subsidiaries/ share in jointly controlled entities) and Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023 are available on the Stock Exchange websites and on the Company's website.  
Company's website : [www.coalindia.in](http://www.coalindia.in)  
BSE Limited : [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)  
NSE Limited : [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)
- The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and thereafter approved by the Board at their respected meeting held on 12th February, 2024. As required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have conducted limited review of the above financial results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023.
- The financial results of the company have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013. (For detailed notes refer to the websites mentioned in Note 1 above).

Sd/-  
(P.M. Prasad)  
Chairman - Cum - Managing Director & CEO  
(DIN - 08073913)

Date : 12<sup>th</sup> February 2024  
Place : Kolkata

● EMPOWERING INDIA ● ENABLING LIFE ● NURTURING NATURE ●

**AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION**  
LIGHT DEPARTMENT

**TENDER NOTICE**

AMC invites sealed competitive bids from interested Bidders for the below mentioned work

(1) Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Grid Tied 30 MW Ground Mounted Solar Project in the state of Gujarat with Comprehensive Operation & Maintenance for five (5) year's period.

Online Submission up to	Date : 04/03/2024 Only up to 04:00 PM.
Last Date of Submission of (Hardcopy)	Date : 06/03/2024 up to 04:00 PM.
Tender details available on	<a href="https://tender.nprocure.com">https://tender.nprocure.com</a>

Immerse in  
**Mint Long Story**  
The art of storytelling

Read only on **mint**